

## बोरापहाड़ी से फिर भारी मात्रा में बरामद की गई नकली शराब

Publish Date: Fri, 01 Mar 2019 11:29 PM (IST)



संस, पीरटांड (गिरिडीह): होली आते ही घर-घर में अवैध शराब बननी तेज हो गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाद शुक्रवार को खुखरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के बोरापहाड़ी में एक व्यक्ति के घर से भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद की। बताया गया कि सिमरकोढ़ी के कई इलाकों में धंधेबाज स्थान बदल बदलकर अवैध शराब की फैक्ट्री चलाते थे, जो फिलहाल कुछ माह से बोरापहाड़ी में कोल परिवार के घर में चल रही थी। जिस व्यक्ति के घर में शराब बनती थी, वह वाहन पर शराब लादकर दूसरे इलाकों में पहुंचाता है।

बता दें कि पीरटांड में अवैध शराब का धंधा वर्ष 2002 से ही धड़ल्ले से चल रहा है। हर बार पर्व-त्योहारों के समय में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ होता रहता है, लेकिन धंधेबाजों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण वे फिर इस धंधे में जुट जाते हैं। शुक्रवार को भी शराब फैक्ट्री से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक, उनके पहुंचने से पहले धंधेबाज भाग चुके थे। बता दें कि यहां के कुछ धंधेबाजों के नाम कई प्रकार के मामले पीरटांड व खुखरा थाने में दर्ज हैं। अब तक दर्जनों फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो चुका है। दुधनियां, दूबेडीह, मधुपुर, क्रंदो, मोनाटांड, पलमा, भारती चलकरी आदि जगहों पर नकली शराब बनने की बात सामने आती रही है। मामले में खुखरा थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि गुप्त सूचना पर बोरापहाड़ी में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इसमें लगभग तीन से चार लाख की संपत्ति जब्त की गई। धंधेबाजों का पता लगाया जा रहा है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/giridih-duplicate-liquor-seized-at-borapahadi-19005030.html>